



## नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह दबोचा

- थाना रावतपुर पुलिस ने गिरोह के चार अभियुक्तों को दबोच लिया है
- पुलिस और सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर कर रहे थे ठगी
- कई लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर कर चुके हैं लाखों की ठगी
- नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है पुलिस

पुलिस और सचिवालय में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर सीधे-साधे लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ थाना रावतपुर पुलिस ने किया है। कई शिकायतें मिलने के बाद जांच में जुटी थाना रावतपुर पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गये अभियुक्तों के पास से नकली नियुक्ति पत्र व अन्य कागजात भी बरामद हुए हैं। पुलिस अभियुक्तों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क के खंगालने में जुटी हुई है।

नमक फैक्ट्री चौराहे के पास से पकड़े गये अभियुक्तों की पहचान 01-अनिल कुमार यादव पुत्र फेरू सिंह पता ग्राम नवादा पोस्ट पुंडरी थाना अलाव जनपद मैनपुरी 02. धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू पुत्र महेश कुमार नि0 हाल पता-आवास विकास नौबस्ता हंसपुरम थाना नौबस्ता कानपुर नगर स्थायी पता - गांव झाउप पोस्ट मोहरारी थाना चांदपुर जिला फतेहपुर 03- कुमार उज्जवल पुत्र राम प्रसाद शर्मा नि0 A-36 केशव विहार कल्यानपुर थाना गुडम्बा जिला लखनऊ (4) देवानन्द उर्फ देवा उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र गौरी शंकर पता-गंग चौली खुर्द पोस्ट खदरा थाना औंग जिला फतेहपुर के रूप में हुई। गाड़ी में अभियुक्तों द्वारा कूटरचित दस्तावेज और वादिनी के द्वारा दी गई धनराशि का बरामद हुई। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ धारा 467/468/471/420/411/406/504/506 IPC के तहत कारवाई कर रही है।

### बरामदगी

अभियुक्तों के पास से 01 पत्र कूटरचित, 01 फोटो कॉपी नियुक्ति पत्र, 01 सचिवालय प्रवेश पत्र, 01 selected list For post of Computer operator, ₹ 2,36,000 (दो लाख छत्तीस हजार) रुपया नकद, 04 विभिन्न बैंको के ATM कार्ड, पास बुक 01, बैंक बुक 02 बरामद हुई।

### आपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0स0 007/22 धारा 420/467/468/471/406/504/506/411 IPC थाना कल्यानपुर कानपुर नगर
- 2- मु0अ0स0 0076/21 धारा 307/506 भादवि थाना किशनी जनपद मैनपुरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसआई अभिषेक सोनकर, एसआई दीपक तिवारी, एसआई डालचन्द राजपूत, कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल प्रमोद कुमार शामिल रहे।